



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 फाल्गुन 1945 (श10)  
(सं० पटना 160) पटना, मंगलवार, 27 फरवरी 2024

---

सं०-04तक०/यूनिटी मॉल का निर्माण/156/2023/खण्ड—769  
उद्योग विभाग

संकल्प

24 फरवरी 2024

विषय:— वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु 212.6890 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 106.3445 करोड़ (एक सौ छः करोड़ चौतीस लाख पैतालिस हजार) रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, की 50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण Scheme for special Assistance to states for capital investment for 2023-24 के पार्ट-VI योजनान्तर्गत यूनिटी मॉल का निर्माण के लिए 212.6890 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की कार्य योजना है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त परियोजना की स्वीकृत राशि 212.6890 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के विरुद्ध 50 प्रतिशत राशि 106.3445 करोड़ (एक सौ छः करोड़ चौतीस लाख पैतालिस हजार) रुपये मात्र व्यय हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. योजना का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के अन्तर्गत उत्पादन होने वाले उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार हेतु एक केन्द्र की स्थापना करना है। यूनिटी मॉल के माध्यम से राज्य में उत्पादन होने वाली हस्तशिल्प, हस्तकरघा, स्टार्ट-अप एवं अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं बिक्री की जायेगी। इससे उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और उत्पादकों को आर्थिक लाभ होगा। मॉल का संचालन कार्यान्वयन एजेन्सी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को नामित किया गया है तथा इसका निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा)

द्वारा किया जायेगा। यूनिटी मॉल का निर्माण, जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डा, पटना के पास उद्योग विभाग की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है।

3. मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-20.02.2024 को मद संख्या-28 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 212.6890 करोड़ (दो सौ बारह करोड़ अड़सठ लाख नब्बे हजार) रुपये की लागत से पटना में यूनिटी मॉल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 106.3445 करोड़ (एक सौ छः करोड़ चौतीस लाख पैतालिस हजार) रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संदीप पौण्डरीक,  
अपर मुख्य सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 160-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>